

# आपको आपदा सहायता मिल सकती है

FEMA और राज्य, प्रदेश या जनजातीय सरकार अमरीकी नागरिकों, गैर-नागरिक राष्ट्रिकों और योग्य विदेशियों को प्रत्यक्ष और वित्तीय आपदा सहायता प्रदान कर सकते हैं।

आपदा सहायता में बीमे या अन्य साधनों द्वारा न कवर किए गए अस्थाई किराया सहायता, घर की मरम्मतें, व्यक्ति संपत्ति नुकसान और अन्य गंभीर आपदा-संबंधित आवश्यकताओं या खर्चों के लिए धन शामिल हो सकता है।



नागरिक – 50 राज्यों में से एक, कोलंबिया जिले, प्यूर्टो रिको, यू.एस. वर्जिन आईलैंड्स, या उत्तरी मारियाना आईलैंड्स में पैदा हुआ व्यक्ति; कम से कम एक अमेरिकी माता-पिता या एक देशीय नागरिक को यू.एस. के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति।

गैर-नागरिक राष्ट्रिक – यू.एस. द्वारा कब्जा हासिल करने की तारीख को या उसके बाद यू.एस. (अर्थात अमेरिकी समोआ या स्वैन्स आइलैंड) के बाहरी कब्जे में पैदा हुआ व्यक्ति, या एक व्यक्ति जिसके माता-पिता यू.एस. के गैर-नागरिक राष्ट्रिक हैं। सभी यू.एस. नागरिक, यू.एस राष्ट्रिक हैं, लेकिन प्रत्येक यू.एस. राष्ट्रिक एक यू.एस. नागरिक नहीं है।

एक योग्य विदेशी में आम तौर पर निम्न शामिल होते हैं:

- वे व्यक्ति जो कानूनन रूप से स्थाई नागरिक होते हैं ("ग्रीन कार्ड" धारक)
- शरणार्थी, आश्रित व्यक्ति या विदेशी नागरिक जिनकी डिपोर्टेशन स्थिति लंबित हो
- कम से कम एक वर्ष के लिए यू.एस. में पोरोल किए गए विदेशी व्यक्ति
- शर्तबंध दाखिला दिए गए विदेशी नागरिक (कानून के अनुसार 1 अप्रैल, 1980 के पहले लागू)
- क्यूबा/हाईटियन प्रवेशी
- कुछ विदेशी लोग जो अत्यधिक क्रूरता के अधीन हैं या मानव तस्करी के गंभीर रूप का शिकार हुए हैं, जिनमें "टी" या "यू" वीज़ा वाले व्यक्ति भी शामिल हैं

यदि कोई आवेदक आवेदन के समय नागरिकता या आप्रवास की स्थिति को पूरा नहीं करता है, तब भी परिवार IHP सहायता के कुछ रूपों के लिए आवेदन कर सकता है यदि:

- नाबालिग बच्चे सहित घर का एक अन्य सदस्य पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान पात्रता मानदंड को पूरा करता है
- एक ही घर में रहने वाले नाबालिग बच्चे के माता-पिता या अभिभावक उस नाबालिग बच्चे की ओर से सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं जो यू.एस. नागरिक, गैर-नागरिक राष्ट्रीय या योग्य विदेशी है। घटना अवधि या आपदा घोषणा दिवस के पहले दिन, जो भी पहले आए, को नाबालिग बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए



लोगों को यह सत्यापित करने के लिए एक आप्रवास विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए कि क्या वे FEMA आपदा सहायता के लिए आप्रवास स्थिति आवश्यकताओं को पूरा करते